

भारतीय मानक ब्यूरो  
बं. शा. प्रयोगशाला, बंगलूरु

हमारा सन्दर्भ: बी एन बी ओ एल /एल आर एस/ओ एस एल-6136726

16 अप्रैल 2018

विषय: मै. स्टेपिट लेब्स, बंगलूरु की मान्यता के क्षेत्र में परिवर्तन

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के अनुसार, मै. स्टेपिट लेब्स, #304, 7<sup>वाँ</sup> मेन, एच आर बी आर लेआउट, प्रथम ब्लॉक, बनस्वादी, बंगलूरु – 560 043 (कर्नाटक) के परीक्षण शुल्क में दिनांक 16 अप्रैल 2018 से परिवर्तन किया गया है।

प्रयोगशाला का परिवर्तित मान्यता क्षेत्र **अनुबंध 1** में संलग्न है।

सु. कु. अरोड़ा

वै. बी. एवं प्रभा. अधि. (प्र. मा. योजना)

वै. एफ़ एवं प्रमुख, बं. शा. प्रयोगशाला

वै. एफ़. एवं प्रमुख, एल पी पी डी

भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षे. कार्यालय/शा. कार्यालय/प्रयोगशालाएं/सी एम डी - I , II , III

प्रमुख, आई टी एस : कृपया इस परिपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करें।

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**BNBOL, BANGALORE**

**Our Ref:** BNBOL/LRS/OSL-6136726

16 April 2018

**Subject:** Modification in the scope of recognition of M/s Stepit Labs, Bangalore

After approval of Competent Authority, testing charges of M/s Stepit Labs, #304, 7<sup>th</sup> Main, HRBR Layout, 1<sup>st</sup> Block, Banasvadi, Bangalore - 560 043 (Karnataka) have been modified w.e.f. 16 April 2018.

The modified scope of recognition of the lab is enclosed as **Annexure 1**.

S K Arora  
Sc-B, OIC (LRS)

**Sc-E & Head, BNBOL**

**Sc-F & Head, LPPD**

**All ROs/BOs/Labs/CMD-I/CMD-II/CMD-III**

**Annexure 1**

<b>DATA ON OUTSIDE RECOGNIZED LABORATORIES</b>		From 21/04/2018 to 20/04/2021	
<b>OSL CODE:</b>	6136726	<b>CONTACT:</b>	Mr. K. Venkatesan, Managing Partner/ Quality Manager
<b>NAME &amp; ADDRESS:</b>	M/s Stepit Labs, #304, 7 <sup>th</sup> Main, HRBR Layout, 1 <sup>st</sup> Block, Banasvadi, Bangalore - 560 043.	<b>TELEPHONE :</b>	9945571110
		<b>FAX:</b>	---
		<b>E-mail:</b>	venkatesan@stepitlabs.com
		<b>REMARKS:</b>	Scope modified on 16/4/2018

<b>S. No.</b>	<b>IS Number</b>	<b>Product</b>	<b>Testing Charges</b>	<b>Remarks</b>
1	IS 16046:2015	Secondary Cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications	Rs. 58000/- for Lithium system cells;* Rs. 48000/- for Lithium system batteries;* Rs. 139000/- for Nickel system cells; Rs. 102000/- for Nickel system batteries	Transport test (cl.8.3.8) based on based on manufacturer's documents to demonstrate compliance <b>*Testing Charges effective from 16/4/2018</b>

**Head, ITS, BIS HQs:** Please upload the circular on BIS Intranet.